

## EN: USER INFORMATION

**GLOVE STYLE:** Palm coated • **LINER:** Polyester • **COATING:** Nitrile foam

**USE:** Gloves are designed to protect against intermediate risk which may include General material handling, assembly and maintenance glove providing protection against slip, dirt and moderate mechanical workload. Suitability of the product to is to be ascertained per each particular work application as part of the end users risk assessment program. Use protective gloves only for the intended use and the right size. Check for damage before use. Never use damage gloves. • **CLEANING/MAINTENANCE** Check that the glove does not present holes, cracks, tears, colour change, ... and discard any glove presenting such defects. Gloves should not be left in contaminated condition if reuse is intended in which case gloves should be cleaned as far as possible in a clean, wipe up with a damp cloth. **Note: The performance characteristics of worn and laundered gloves may differ from the results shown on the table overlay.** • **STORAGE** Ideally stored in dry conditions between 10°C and 30°C in the original packaging and sheltered from direct light. Do not exceed 40°C. If the materials constituting the gloves are known to lose their performances during recommended storage please ensure that the storage will not change the glove characteristics significantly. • **OBSCULESCENCE** When stored as recommended, the gloves will not suffer a change in mechanical properties for up to three years from the date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on the use. It is the responsibility of user to ascertain suitability of the glove for its intended use. • **GENERAL** None of the materials or processes used in the manufacture of these products is known to be harmful to the wearer. If reaction was to occur, then obtain medical assistance. Inappropriate glove use- Tacitely sensitivity and dexterity reduces with a poor-fitting glove, which can cause fatigue in the hands and fingers. Wrong size and poor fitting lead to poor hand protection. Glove donning- Choose the appropriate glove size. Check for any physical damages or contamination prior to each use of the glove. Discard if there is any damage or contaminant. Glove drying- Remove the glove as soon as you see wearing or damage. When the glove is covered in a contaminant that is not removable or presents a potential hazard it is advisable to ease left and right gloves off alternately using the glove hand so that the gloves are removed without the contaminant contacting the skin. Hand hygiene- To maintain hand hygiene wash hands thoroughly before donning gloves and after removing gloves. • **CAUTION! Avoid using near moving machinery due to entanglement hazard.** • **PLEASE NOTE** The results of the physical tests should help in glove selection, however it must be understood that actual conditions of use cannot be simulated and it is the responsibility of the end user and not the manufacturer to determine glove suitability for the intended use. To request our other available language versions of this information sheet, or for further information on this product please contact our sales team on sales@globusgroup.com or refer to our website www.globusgroup.com. To access and download Declaration of Conformity please visit gg-doc.com/skytec.

## DE: BENUTZERINFORMATIONEN

**HANDSCHUHSTIL:** Handfläche beschichtet • **FUTTER:** Polyester • **BESCHÜTTUNG:** Nitril-Schaumstoff

**VERWENDUNG:** Die Handschuhe schützen vor Zwischenrisiken, einschließlich allgemeiner Materialhandhabung, Montage und Wartung, sie bieten Schutz vor Schlupf, Schmutz und mäßiger mechanischer Arbeitsbelastung. Die Eignung des Produkts ist im Rahmen einer Risikobewertung des Endnutzers für jede einzelne Arbeitsanwendung zu bestimmen. Die Verwendung des Produkts ist zu bestätigen, wenn die Anwendung für die jeweilige Arbeit die richtige Größe, Vor- Gebrauch auf Beschädigungen prüfen. Niemals einen beschädigten Handschuh verwenden. • **REINIGUNG/WARTUNG** Stellen Sie sicher, dass der Handschuh keine Löcher, Risse, Farbveränderungen usw. aufweist und entgegen der Sinne alle Handschuhe, die solche Mängel betroffen könnten. Handschuhe sollten nicht in kontaminierten Bereichen zurückgelassen werden, falls eine erneute Verwendung beabsichtigt wird. In diesem Fall sollten die Handschuhe so wie möglich gereinigt werden. Zur Reinigung mit einem feuchten Tuch abwischen. **Hinweis: Die Leistungsmerkmale getragener und gewaschener Handschuhe können von den in der Tabelle der Rückseite angegebenen Ergebnissen abweichen.** • **AUFBEREITUNG** Idealerweise werden sie in trockenen Bedingungen zwischen 10°C und 30°C in der Originalverpackung und vor direkter Lichtstrahlung geschützt aufbewahrt. Die Höchsttemperatur darf 40°C nicht übersteigen. Bei ungeschämter Lagerung und Lagerungstzeit, können die Handschuhe ihre Materialeigenschaften verlieren. Deshalb achten Sie bitte unbedingt darauf, dass die Handschuhe ordnungsgemäß gelagert werden müssen, um die Handschuheseigenschaften nicht zu beeinträchtigen. • **ÜBERLEBUNG** Bei einer Aufbewahrung gemäß den Empfehlungen ändern sich die mechanischen Eigenschaften der Handschuhe bis zu drei Jahre ab Fertigungsdatum nicht. Die Haltbarkeit kann nicht genau angegeben werden und ist von der Anwendung abhängig. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, die Eignung der Handschuhe für den Verwendungszweck zu bestätigen und dies zu tun. Die Fertigungsdetails der Handschuhe sind in der Tabelle der Rückseite angegeben. Materialien oder Verfahren ist als für den Träger schädlich bekannt. Lassen Sie sich im Falle einer Reaktion ärztlich behandeln! Ungeschämte Verwendung von Handschuhen: Die textile Sensibilität und Geschicklichkeit verringert sich bei einem schlicht sitzenden Handschuh, was zu Ermüdung der Hände und Finger führen kann. Falsche Größe und schlechte Passform führen zu schlechtem Handschutz. Anzeichen von Handschuhen: Wählen Sie die passende Handschuhgröße aus. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch des Handschuhs ob physiche Beschädigungen oder Verunreinigungen zu sehen sind. Bei Beschädigungen oder Verunreinigungen sind die Handschuhe zu entsorgen. Aussehen des Handschuhs: Ziehen Sie den Handschuh aus, sobald Sie Abnutzungserscheinungen und Beschädigungen feststellen. **WICHTIG:** Handschuhe sind für den Fertigungszweck der Produkte vorgesehen und sind nicht für andere Zwecke bestimmt. Ist dies ratsam, den linken und rechten Handschuh abwechselnd mit der behandschutten Hand auszuziehen, damit die Handschuheseigenschaft der Verunreinigung mit der Haut entfernt werden können. Handhygiene: Um die Handhygiene aufrecht zu erhalten, waschen Sie sich gründlich die Hände, bevor und nachdem Sie die Handschuhe an- und ausziehen. • **VORSICHT! Nicht in der Nähe beweglicher Maschinen verwenden - es besteht Unfallgefahr!** • **BITTE BEACHTEN** Die Ergebnisse der physikalischen Tests sollten nicht bei der Auswahl der Handschuhe helfen. Jedoch muss sich, dass die tatsächlichen Einsatzbedingungen nicht simuliert werden können und der Endnutzer nicht der Hersteller dafür verantwortlich ist, die Eignung der Handschuhe für den Verwendungszweck zu bestimmen. **UMPIEGE/ MAINTENANCE** Controller que de quanto no presente agiçeres, grietas, roturas, cambio de color... y deschar cualquier quante que presente tales defectos. **NOTAS:** Los guantes no deben dejarse contaminados si se pretende reutilizarlos, en cuyo caso deberán limpiarse en la forma medida posible. Para limpiar, frota con un paño húmedo. **Nota: Las características de rendimiento de los guantes gastados y lavados pueden diferir de los resultados mostrados en la tabla o adoro.** **ALMACENAMIENTO** Almacena idealmente en condiciones secas entre 10°C/30°C en el embalaje original y protegidos de la luz directa. No exceder los 40°C. • **OBSCULESCENCIA** Cuando se almacenan como se recomienda, las propiedades mecánicas de los guantes no sufriran ningún cambio durante un periodo de hasta tres años desde la fecha de fabricación. La vida útil no puede especificarse y depende de la aplicación, por lo que es responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad del guante para su uso. Es la responsabilidad del usuario de determinar la idoneidad de los guantes para su uso. • **GENERAL** Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la fabricación de estos productos sea perjudicial para el usuario. Si se produjera alguna reacción, se solicite asistencia médica. **Nota:** Indicado de los guantes: la sensibilidad táctil y la maniobrabilidad se reducen en caso de un mal ajuste de los guantes, lo que puede provocar fatiga en las manos y los dedos. El uso de tamaños inadecuados o la falta de ajuste pueden provocar una mala protección de las manos. Colocación de los guantes: Evite un tamaño adecuado. Cada vez que va a utilizar los guantes, compruebe si existen daños físicos o contaminación; y si es así, tírelos. Retire los guantes: Quite inmediatamente los guantes si detecta desgarros o rasgos. Si los guantes están manchados con un contaminante que no puede eliminarse, retire los guantes inmediatamente. **PRECAUCIÓN:** Evite usar los guantes cerca de maquinaria móvil debido al peligro de enganche. • **TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE** Los resultados de las pruebas físicas deberían ayudar a la selección de los guantes, aunque debe entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse y será responsabilidad del usuario final, y no del fabricante, determinar la idoneidad de los guantes para el uso previsto. Para solicitar esta hoja informativa en otras versiones de idiomas, o para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas en sales@globusgroup.com o consulte nuestro sitio web www.globusgroup.com. Para acceder y descargar la Declaración de conformidad, visite gg-doc.com/skytec

## ES: INFORMACION DEL USUARIO

**ESTILO DE GUANTE:** Palma recubierta • **FORRO:** Poliéster • **RECUBRIMIENTO:** Espuma de nitrilo

**USE:** Los guantes están diseñados para proteger contra riesgos intermedios que pueden incluir el manejo, montaje y mantenimiento general de materiales, proporcionando protección contra resbalones, suciedad y riesgo de trabajo mecánico moderado. La idoneidad del producto debe determinarse para cada aplicación de trabajo en particular como parte del programa de evaluación de riesgos de los usuarios finales. Utilice guantes de protección únicamente para el uso previsto y del tamaño adecuado. Compruebe si hay daños antes de usar, nunca use guantes con agujeros, grietas, roturas o cambio de color... y deschar cualquier quante que presente tales defectos. **NOTAS:** Los guantes no deben dejarse contaminados si se pretende reutilizarlos, en cuyo caso deberán limpiarse en la forma medida posible. Para limpiar, frota con un paño húmedo. **Nota: Las características de rendimiento de los guantes gastados y lavados pueden diferir de los resultados mostrados en la tabla o adoro.** **ALMACENAMIENTO** Almacena idealmente en condiciones secas entre 10°C/30°C en el embalaje original y protegidos de la luz directa. No exceder los 40°C. • **OBSCULESCENCIA** Cuando se almacenan como se recomienda, las propiedades mecánicas de los guantes no sufriran ningún cambio durante un periodo de hasta tres años desde la fecha de fabricación. La vida útil no puede especificarse y depende de la aplicación, por lo que es responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad del guante para su uso. Es la responsabilidad del usuario de determinar la idoneidad de los guantes para su uso. • **GENERAL** Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la fabricación de estos productos sea perjudicial para el usuario. Si se produjera alguna reacción, se solicite asistencia médica. **Nota:** Indicado de los guantes: la sensibilidad táctil y la maniobrabilidad se reducen en caso de un mal ajuste de los guantes, lo que puede provocar fatiga en las manos y los dedos. El uso de tamaños inadecuados o la falta de ajuste pueden provocar una mala protección de las manos. Colocación de los guantes: Evite un tamaño adecuado. Cada vez que va a utilizar los guantes, compruebe si existen daños físicos o contaminación; y si es así, tírelos. Retire los guantes: Quite inmediatamente los guantes si detecta desgarros o rasgos. Si los guantes están manchados con un contaminante que no puede eliminarse, retire los guantes inmediatamente. **PRECAUCIÓN:** Evite el uso cerca de maquinaria móvil debido al peligro de enganche. • **TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE** Los resultados de las pruebas físicas deberían ayudar a la selección de los guantes, aunque debe entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse y será responsabilidad del usuario final, y no del fabricante, determinar la idoneidad de los guantes para el uso previsto. Para solicitar esta hoja informativa en otras versiones de idiomas, o para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas en sales@globusgroup.com o consulte nuestro sitio web www.globusgroup.com. Para acceder y descargar la Declaración de conformidad, visite gg-doc.com/skytec

**FA اطلاع کابری**
**سبک دستکش:** کف پوشیده • **آستر:** پلیاستر • **پوشش:** اسفنج نیتریل
**استفاده:** دستکش برای محافظت در برابر خطر متوسط طراحی شده است که ممکن است شامل دست زدن به مواد به صورت عمومی، مونتاژ و دستکش نگهداری باشد و از آن در برابر لغزش، آلودگی و فشار مکانیکی متوسط محافظت کند. مناسب بودن محصول در هر برنامه کاری خاص به ارزیابی ریسک از طرف مشتری و ارزیابی ریسک کارکنان نهایی بستگی دارد. هرگز از دستکش استفاده نکنید مگر برای کارهای مورد استفاده خود. در اندازه مناسب استفاده کنید. از استفاده از دستکش در شرایطی که می تواند منجر به آلودگی، تغییر رنگ، پارگی، تغییر شکل، ... و نشانه های آلودگی و آلودگی در هر یک از چنین دستکش هایی که در این فرآیند استفاده می کنید، مانند تغییر رنگ، پارگی، تغییر شکل، ... و نشانه های آلودگی و آلودگی در هر یک از چنین دستکش هایی که در این فرآیند استفاده می کنید، توجه: ویژگی های دستکش دستکش مستعمل و استفاده شده ممکن است با نتایج مندرج در جدول پشت صفحه تفاوت داشته باشد.

**اگر استفاده خود است که ما توصیه می کنیم:**
**توجه:** این دستکش در هنگام ذخیره توصیه شده در برابر رطوبت، آلودگی، پارگی، تغییر رنگ، پارگی، تغییر شکل، ... و نشانه های آلودگی و آلودگی در هر یک از چنین دستکش هایی که در این فرآیند استفاده می کنید، توجه: ویژگی های دستکش دستکش مستعمل و استفاده شده ممکن است با نتایج مندرج در جدول پشت صفحه تفاوت داشته باشد.
**توجه:** این دستکش در هنگام ذخیره توصیه شده در برابر رطوبت، آلودگی، پارگی، تغییر رنگ، پارگی، تغییر شکل، ... و نشانه های آلودگی و آلودگی در هر یک از چنین دستکش هایی که در این فرآیند استفاده می کنید، توجه: ویژگی های دستکش دستکش مستعمل و استفاده شده ممکن است با نتایج مندرج در جدول پشت صفحه تفاوت داشته باشد.
**توجه:** این دستکش در هنگام ذخیره توصیه شده در برابر رطوبت، آلودگی، پارگی، تغییر رنگ، پارگی، تغییر شکل، ... و نشانه های آلودگی و آلودگی در هر یک از چنین دستکش هایی که در این فرآیند استفاده می کنید، توجه: ویژگی های دستکش دستکش مستعمل و استفاده شده ممکن است با نتایج مندرج در جدول پشت صفحه تفاوت داشته باشد.
**توجه:** این دستکش در هنگام ذخیره توصیه شده در برابر رطوبت، آلودگی، پارگی، تغییر رنگ، پارگی، تغییر شکل، ... و نشانه های آلودگی و آلودگی در هر یک از چنین دستکش هایی که در این فرآیند استفاده می کنید، توجه: ویژگی های دستکش دستکش مستعمل و استفاده شده ممکن است با نتایج مندرج در جدول پشت صفحه تفاوت داشته باشد.

**توجه:** این دستکش در هنگام ذخیره توصیه شده در برابر رطوبت، آلودگی، پارگی، تغییر رنگ، پارگی، تغییر شکل، ... و نشانه های آلودگی و آلودگی در هر یک از چنین دستکش هایی که در این فرآیند استفاده می کنید، توجه: ویژگی های دستکش دستکش مستعمل و استفاده شده ممکن است با نتایج مندرج در جدول پشت صفحه تفاوت داشته باشد.
**توجه:** این دستکش در هنگام ذخیره توصیه شده در برابر رطوبت، آلودگی، پارگی، تغییر رنگ، پارگی، تغییر شکل، ... و نشانه های آلودگی و آلودگی در هر یک از چنین دستکش هایی که در این فرآیند استفاده می کنید، توجه: ویژگی های دستکش دستکش مستعمل و استفاده شده ممکن است با نتایج مندرج در جدول پشت صفحه تفاوت داشته باشد.

## FR: INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**STYLE/GANT:** Enduction totale • **DOUBLURE:** Polyester • **ENDUCTION:** Mousse nitrile


**UTILISATION:** Les gants sont conçus pour protéger contre les risques intermédiaires qui peuvent inclure la manutention, l'assemblage et l'entretien général du matériel, offrant une protection contre le glissement, la saleté et une charge de travail mécanique modérée. L'adéquation du produit doit être vérifiée pour chaque application de travail particulière dans le cadre du programme d'évaluation des risques des utilisateurs finaux. Utilisez des gants de protection uniquement pour l'usage prévu et de la bonne taille. Vérifiez les dommages avant utilisation et ne portez pas de gants endommagés. • **NETTOYAGE/ENTRETIEN** Vérifiez que le gant ne présente pas de trous, fissures, déchirures, changement de couleur... Et jeter tout gant présentant de tels défauts. Les gants ne doivent pas être laissés dans un environnement contaminé s'il est prévu de les réutiliser. Dans ce cas, les gants doivent impérativement être soigneusement nettoyés. Pour nettoyer, essayez avec un chiffon humide. **Remarque: Les performances des gants déjà utilisés peuvent être différentes des résultats affichés sur le tableau au verso.** • **STOCKAGE** Idéalement, le stockage doit se faire dans un endroit sec à une température comprise entre 10°C et 30°C dans l'emballage d'origine et à l'abri de la lumière directe du soleil. La température ne doit en aucun cas dépasser 40°C. Si les matériaux constituant les gants sont connus pour perdre leurs performances pendant la durée de stockage recommandée, veuillez vous assurer que le stockage ne modifie pas de manière significative les caractéristiques des gants. • **OBSCULESCENCE** S'il sont conservés aux conditions conseillées, leurs propriétés mécaniques restent les mêmes pendant au moins trois ans à partir de leur date de fabrication. La durée de vie ne peut pas être indiquée car elle dépend de l'utilisation qui est faite du produit. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que les gants conviennent à l'utilisation pour laquelle ils sont prévus. • **GENERALITES** Les matériaux ou processus utilisés au cours de la fabrication de ces produits ne sont pas nocifs pour l'utilisateur. En cas de réaction, veuillez contacter un médecin. Utilisation inappropriée des gants: - La sensibilité tactile et la dextérité diminuent avec un gant mal ajusté, ce qui peut entraîner une fatigue des mains et des doigts. Une taille incorrecte et un mauvais ajustement entraînent une mauvaise protection des gants. - Choisissez la taille de gant appropriée. Vérifiez l'absence de dommages physiques ou de contamination avant chaque utilisation du gant. Jeter s'il y a des dommages ou des contaminants. Retrait du gant de: - Retirez le gant des que vous constatez une usure ou des dommages. Lorsque le gant est recouvert d'un contaminant qui n'est pas amovible ou présente un danger potentiel, il est conseillé d'enlever alternativement les gants chaque et droit en utilisant la main gantée afin que les gants soient retirés sans que le contaminant n'entre en contact avec la peau. Hygiène des mains: • Pour maintenir l'hygiène des mains, lavez-vous soigneusement les mains avant d'enfiler et après avoir enlevés les gants. • **ATTENTION! Ne pas utiliser à proximité de machine en mouvement pour éviter tout danger de happement.** • **REMARQUE** TL résultats affichés dans ces essais physiques doivent servir à choisir le bon paire de gants. En recherche, nous vous recommandons qu'il n'est impossible de simuler les différentes conditions d'utilisation. Par conséquent, il incombe à l'utilisateur, et non pas au fabricant, de s'assurer que les gants conviennent à l'utilisation pour laquelle ils sont prévus. Pour obtenir une version de cette fiche d'informations dans une autre langue ou plus de renseignements sur ce produit, veuillez contacter notre équipe commerciale à sales@globusgroup.com ou vous rendre sur notre site web www.globusgroup.com Pour accéder et télécharger la déclaration de conformité, merci de visiter gg-doc.com/skytec

## HI: प्रयोगकर्ता सूचनाएं

दस्तान की शैली: पाला लेपित • लाइनर: पॉलीएस्टर • कोटिंग: इन्ड्रिनल फोम
उपयोग: दस्तानों को इंटरमीडियेट जोखिम के सामने सुरक्षा प्रदान करने हेतु हैं जिनमें सामान्य सामग्री हैंडलिंग, असेंबली और रखरखाव शामिल हैं। ये दस्तानें ग्लिस्सिंग, स्लिप और ओवरलैप जैसे के मेकैनिज्मों के साथ सामान्य सुरक्षा प्रदान करने हैं। अंतिम उपयोगकर्ता जोखिम मूल्यांकन कार्यक्रम से एक भाग के रूप में उपयोग करने के अनुभव से आज़ाद पर उपरान्त ही उपकरणों को सुरक्षा के लिए नहीं किया जाना है। सुरक्षा के लिए दस्तानों को केवल उचित उपकरण के लिए और सही आकार में उपयोग करें। उपकरण से पहले किसी बरतकी की जा सकती है। दस्तानों को सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग करें • चेक करें कि दस्तानों में दर, विकृत, कट्टर, रंग के बदलाव आदि न हों, और किसी भी नो-स्लिप पैटर्न/विनियमन वाले दस्तानों को बाहर निकाल दें। यदि जूती है तो उनका निष्काशन किया जाना चाहिए। यदि फिर भी इंस्टॉलेशन किया जाना हो तो दस्तानों को निम्नलिखित विनियमन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में दस्तानों को याथावश्यक पैक फिटा जाना चाहिए। सुरक्षा करने के लिए, किसी भी नो-स्लिप पैटर्न को पढ़ने या देखें: फटे हुए या खिंची 10 कि। ग्राम दस्तानों को निष्काशन/उत्प्रेषण/ट्वेल अवैध/रकूत पर बाहिर गए परिष्कार में अलग हो सकते हैं • भूगर्भ अन्वेषण करने से पहले उपकरणों को 10°C और 30°C के बीच सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए और सीधे प्रयोग में आने से पहले सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उपकरणों को सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग करें • चेक करें कि दस्तानों में दर, विकृत, कट्टर, रंग के बदलाव आदि न हों, और किसी भी नो-स्लिप पैटर्न/विनियमन वाले दस्तानों को बाहर निकाल दें। यदि जूती है तो उनका निष्काशन किया जाना चाहिए। यदि फिर भी इंस्टॉलेशन किया जाना हो तो दस्तानों को निम्नलिखित विनियमन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में दस्तानों को याथावश्यक पैक फिटा जाना चाहिए। सुरक्षा करने के लिए, किसी भी नो-स्लिप पैटर्न को पढ़ने या देखें: फटे हुए या खिंची 10 कि। ग्राम दस्तानों को निष्काशन/उत्प्रेषण/ट्वेल अवैध/रकूत पर बाहिर गए परिष्कार में अलग हो सकते हैं • भूगर्भ अन्वेषण करने से पहले उपकरणों को 10°C और 30°C के बीच सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए और सीधे प्रयोग में आने से पहले सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उपकरणों को सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग करें • चेक करें कि दस्तानों में दर, विकृत, कट्टर, रंग के बदलाव आदि न हों, और किसी भी नो-स्लिप पैटर्न/विनियमन वाले दस्तानों को बाहर निकाल दें। यदि जूती है तो उनका निष्काशन किया जाना चाहिए। यदि फिर भी इंस्टॉलेशन किया जाना हो तो दस्तानों को निम्नलिखित विनियमन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में दस्तानों को याथावश्यक पैक फिटा जाना चाहिए। सुरक्षा करने के लिए, किसी भी नो-स्लिप पैटर्न को पढ़ने या देखें: फटे हुए या खिंची 10 कि। ग्राम दस्तानों को निष्काशन/उत्प्रेषण/ट्वेल अवैध/रकूत पर बाहिर गए परिष्कार में अलग हो सकते हैं • भूगर्भ अन्वेषण करने से पहले उपकरणों को 10°C और 30°C के बीच सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए और सीधे प्रयोग में आने से पहले सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उपकरणों को सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग करें • चेक करें कि दस्तानों में दर, विकृत, कट्टर, रंग के बदलाव आदि न हों, और किसी भी नो-स्लिप पैटर्न/विनियमन वाले दस्तानों को बाहर निकाल दें। यदि जूती है तो उनका निष्काशन किया जाना चाहिए। यदि फिर भी इंस्टॉलेशन किया जाना हो तो दस्तानों को निम्नलिखित विनियमन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में दस्तानों को याथावश्यक पैक फिटा जाना चाहिए। सुरक्षा करने के लिए, किसी भी नो-स्लिप पैटर्न को पढ़ने या देखें: फटे हुए या खिंची 10 कि। ग्राम दस्तानों को निष्काशन/उत्प्रेषण/ट्वेल अवैध/रकूत पर बाहिर गए परिष्कार में अलग हो सकते हैं • भूगर्भ अन्वेषण करने से पहले उपकरणों को 10°C और 30°C के बीच सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए और सीधे प्रयोग में आने से पहले सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उपकरणों को सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग करें • चेक करें कि दस्तानों में दर, विकृत, कट्टर, रंग के बदलाव आदि न हों, और किसी भी नो-स्लिप पैटर्न/विनियमन वाले दस्तानों को बाहर निकाल दें। यदि जूती है तो उनका निष्काशन किया जाना चाहिए। यदि फिर भी इंस्टॉलेशन किया जाना हो तो दस्तानों को निम्नलिखित विनियमन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में दस्तानों को याथावश्यक पैक फिटा जाना चाहिए। सुरक्षा करने के लिए, किसी भी नो-स्लिप पैटर्न को पढ़ने या देखें: फटे हुए या खिंची 10 कि। ग्राम दस्तानों को निष्काशन/उत्प्रेषण/ट्वेल अवैध/रकूत पर बाहिर गए परिष्कार में अलग हो सकते हैं • भूगर्भ अन्वेषण करने से पहले उपकरणों को 10°C और 30°C के बीच सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए और सीधे प्रयोग में आने से पहले सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उपकरणों को सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग करें • चेक करें कि दस्तानों में दर, विकृत, कट्टर, रंग के बदलाव आदि न हों, और किसी भी नो-स्लिप पैटर्न/विनियमन वाले दस्तानों को बाहर निकाल दें। यदि जूती है तो उनका निष्काशन किया जाना चाहिए। यदि फिर भी इंस्टॉलेशन किया जाना हो तो दस्तानों को निम्नलिखित विनियमन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में दस्तानों को याथावश्यक पैक फिटा जाना चाहिए। सुरक्षा करने के लिए, किसी भी नो-स्लिप पैटर्न को पढ़ने या देखें: फटे हुए या खिंची 10 कि। ग्राम दस्तानों को निष्काशन/उत्प्रेषण/ट्वेल अवैध/रकूत पर बाहिर गए परिष्कार में अलग हो सकते हैं • भूगर्भ अन्वेषण करने से पहले उपकरणों को 10°C और 30°C के बीच सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए और सीधे प्रयोग में आने से पहले सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उपकरणों को सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग करें • चेक करें कि दस्तानों में दर, विकृत, कट्टर, रंग के बदलाव आदि न हों, और किसी भी नो-स्लिप पैटर्न/विनियमन वाले दस्तानों को बाहर निकाल दें। यदि जूती है तो उनका निष्काशन किया जाना चाहिए। यदि फिर भी इंस्टॉलेशन किया जाना हो तो दस्तानों को निम्नलिखित विनियमन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में दस्तानों को याथावश्यक पैक फिटा जाना चाहिए। सुरक्षा करने के लिए, किसी भी नो-स्लिप पैटर्न को पढ़ने या देखें: फटे हुए या खिंची 10 कि। ग्राम दस्तानों को निष्काशन/उत्प्रेषण/ट्वेल अवैध/रकूत पर बाहिर गए परिष्कार में अलग हो सकते हैं • भूगर्भ अन्वेषण करने से पहले उपकरणों को 10°C और 30°C के बीच सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए और सीधे प्रयोग में आने से पहले सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उपकरणों को सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग करें • चेक करें कि दस्तानों में दर, विकृत, कट्टर, रंग के बदलाव आदि न हों, और किसी भी नो-स्लिप पैटर्न/विनियमन वाले दस्तानों को बाहर निकाल दें। यदि जूती है तो उनका निष्काशन किया जाना चाहिए। यदि फिर भी इंस्टॉलेशन किया जाना हो तो दस्तानों को निम्नलिखित विनियमन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में दस्तानों को याथावश्यक पैक फिटा जाना चाहिए। सुरक्षा करने के लिए, किसी भी नो-स्लिप पैटर्न को पढ़ने या देखें: फटे हुए या खिंची 10 कि। ग्राम दस्तानों को निष्काशन/उत्प्रेषण/ट्वेल अवैध/रकूत पर बाहिर गए परिष्कार में अलग हो सकते हैं • भूगर्भ अन्वेषण करने से पहले उपकरणों को 10°C और 30°C के बीच सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए और सीधे प्रयोग में आने से पहले सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उपकरणों को सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग करें • चेक करें कि दस्तानों में दर, विकृत, कट्टर, रंग के बदलाव आदि न हों, और किसी भी नो-स्लिप पैटर्न/विनियमन वाले दस्तानों को बाहर निकाल दें। यदि जूती है तो उनका निष्काशन किया जाना चाहिए। यदि फिर भी इंस्टॉलेशन किया जाना हो तो दस्तानों को निम्नलिखित विनियमन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में दस्तानों को याथावश्यक पैक फिटा जाना चाहिए। सुरक्षा करने के लिए, किसी भी नो-स्लिप पैटर्न को पढ़ने या देखें: फटे हुए या खिंची 10 कि। ग्राम दस्तानों को निष्काशन/उत्प्रेषण/ट्वेल अवैध/रकूत पर बाहिर गए परिष्कार में अलग हो सकते हैं • भूगर्भ अन्वेषण करने से पहले उपकरणों को 10°C और 30°C के बीच सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए और सीधे प्रयोग में आने से पहले सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उपकरणों को सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग करें • चेक करें कि दस्तानों में दर, विकृत, कट्टर, रंग के बदलाव आदि न हों, और किसी भी नो-स्लिप पैटर्न/विनियमन वाले दस्तानों को बाहर निकाल दें। यदि जूती है तो उनका निष्काशन किया जाना चाहिए। यदि फिर भी इंस्टॉलेशन किया जाना हो तो दस्तानों को निम्नलिखित विनियमन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में दस्तानों को याथावश्यक पैक फिटा जाना चाहिए। सुरक्षा करने के लिए, किसी भी नो-स्लिप पैटर्न को पढ़ने या देखें: फटे हुए या खिंची 10 कि। ग्राम दस्तानों को निष्काशन/उत्प्रेषण/ट्वेल अवैध/रकूत पर बाहिर गए परिष्कार में अलग हो सकते हैं • भूगर्भ अन्वेषण करने से पहले उपकरणों को 10°C और 30°C के बीच सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए और सीधे प्रयोग में आने से पहले सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उपकरणों को सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग करें • चेक करें कि दस्तानों में दर, विकृत, कट्टर, रंग के बदलाव आदि न हों, और किसी भी नो-स्लिप पैटर्न/विनियमन वाले दस्तानों को बाहर निकाल दें। यदि जूती है तो उनका निष्काशन किया जाना चाहिए। यदि फिर भी इंस्टॉलेशन किया जाना हो तो दस्तानों को निम्नलिखित विनियमन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में दस्तानों को याथावश्यक पैक फिटा जाना चाहिए। सुरक्षा करने के लिए, किसी भी नो-स्लिप पैटर्न को पढ़ने या देखें: फटे हुए या खिंची 10 कि। ग्राम दस्तानों को निष्काशन/उत्प्रेषण/ट्वेल अवैध/रकूत पर बाहिर गए परिष्कार में अलग हो सकते हैं • भूगर्भ अन्वेषण करने से पहले उपकरणों को 10°C और 30°C के बीच सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए और सीधे प्रयोग में आने से पहले सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उपकरणों को सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग करें • चेक करें कि दस्तानों में दर, विकृत, कट्टर, रंग के बदलाव आदि न हों, और किसी भी नो-स्लिप पैटर्न/विनियमन वाले दस्तानों को बाहर निकाल दें। यदि जूती है तो उनका निष्काशन किया जाना चाहिए। यदि फिर भी इंस्टॉलेशन किया जाना हो तो दस्तानों को निम्नलिखित विनियमन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में दस्तानों को याथावश्यक पैक फिटा जाना चाहिए। सुरक्षा करने के लिए, किसी भी नो-स्लिप पैटर्न को पढ़ने या देखें: फटे हुए या खिंची 10 कि। ग्राम दस्तानों को निष्काशन/उत्प्रेषण/ट्वेल अवैध/रकूत पर बाहिर गए परिष्कार में अलग हो सकते हैं • भूगर्भ अन्वेषण करने से पहले उपकरणों को 10°C और 30°C के बीच सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए और सीधे प्रयोग में आने से पहले सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उपकरणों को सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग करें • चेक करें कि दस्तानों में दर, विकृत, कट्टर, रंग के बदलाव आदि न हों, और किसी भी नो-स्लिप पैटर्न/विनियमन वाले दस्तानों को बाहर निकाल दें। यदि जूती है तो उनका निष्काशन किया जाना चाहिए। यदि फिर भी इंस्टॉलेशन किया जाना हो तो दस्तानों को निम्नलिखित विनियमन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में दस्तानों को याथावश्यक पैक फिटा जाना चाहिए। सुरक्षा करने के लिए, किसी भी नो-स्लिप पैटर्न को पढ़ने या देखें: फटे हुए या खिंची 10 कि। ग्राम दस्तानों को निष्काशन/उत्प्रेषण/ट्वेल अवैध/रकूत पर बाहिर गए परिष्कार में अलग हो सकते हैं • भूगर्भ अन्वेषण करने से पहले उपकरणों को 10°C और 30°C के बीच सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए और सीधे प्रयोग में आने से पहले सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उपकरणों को सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग करें • चेक करें कि दस्तानों में दर, विकृत, कट्टर, रंग के बदलाव आदि न हों, और किसी भी नो-स्लिप पैटर्न/विनियमन वाले दस्तानों को बाहर निकाल दें। यदि जूती है तो उनका निष्काशन किया जाना चाहिए। यदि फिर भी इंस्टॉलेशन किया जाना हो तो दस्तानों को निम्नलिखित विनियमन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में दस्तानों को याथावश्यक पैक फिटा जाना चाहिए। सुरक्षा करने के लिए, किसी भी नो-स्लिप पैटर्न को पढ़ने या देखें: फटे हुए या खिंची 10 कि। ग्राम दस्तानों को निष्काशन/उत्प्रेषण/ट्वेल अवैध/रकूत पर बाहिर गए परिष्कार में अलग हो सकते हैं • भूगर्भ अन्वेषण करने से पहले उपकरणों को 10°C और 30°C के बीच सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए और सीधे प्रयोग में आने से पहले सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उपकरणों को सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग करें • चेक करें कि दस्तानों में दर, विकृत, कट्टर, रंग के बदलाव आदि न हों, और किसी भी नो-स्लिप पैटर्न/विनियमन वाले दस्तानों को बाहर निकाल दें। यदि जूती है तो उनका निष्काशन किया जाना चाहिए। यदि फिर भी इंस्टॉलेशन किया जाना हो तो दस्तानों को निम्नलिखित विनियमन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में दस्तानों को याथावश्यक पैक फिटा जाना चाहिए। सुरक्षा करने के लिए, किसी भी नो-स्लिप पैटर्न को पढ़ने या देखें: फटे हुए या खिंची 10 कि। ग्राम दस्तानों को निष्काशन/उत्प्रेषण/ट्वेल अवैध/रकूत पर बाहिर गए परिष्कार में अलग हो सकते हैं • भूगर्भ अन्वेषण करने से पहले उपकरणों को 10°C और 30°C के बीच सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए और सीधे प्रयोग में आने से पहले सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उपकरणों को सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग करें • चेक करें कि दस्तानों में दर, विकृत, कट्टर, रंग के बदलाव आदि न हों, और किसी भी नो-स्लिप पैटर्न/विनियमन वाले दस्तानों को बाहर निकाल दें। यदि जूती है तो उनका निष्काशन किया जाना चाहिए। यदि फिर भी इंस्टॉलेशन किया जाना हो तो दस्तानों को निम्नलिखित विनियमन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में दस्तानों को याथावश्यक पैक फिटा जाना चाहिए। सुरक्षा करने के लिए, किसी भी नो-स्लिप पैटर्न को पढ़ने या देखें: फटे हुए या खिंची 10 कि। ग्राम दस्तानों को निष्काशन/उत्प्रेषण/ट्वेल अवैध/रकूत पर बाहिर गए परिष्कार में अलग हो सकते हैं • भूगर्भ अन्वेषण करने से पहले उपकरणों को 10°C और 30°C के बीच सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए और सीधे प्रयोग में आने से पहले सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उपकरणों को सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग करें • चेक करें कि दस्तानों में दर, विकृत, कट्टर, रंग के बदलाव आदि न हों, और किसी भी नो-स्लिप पैटर्न/विनियमन वाले दस्तानों को बाहर निकाल दें। यदि जूती है तो उनका निष्काशन किया जाना चाहिए। यदि फिर भी इंस्टॉलेशन किया जाना हो तो दस्तानों को निम्नलिखित विनियमन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में दस्तानों को याथावश्यक पैक फिटा जाना चाहिए। सुरक्षा करने के लिए, किसी भी नो-स्लिप पैटर्न को पढ़ने या देखें: फटे हुए या खिंची 10 कि। ग्राम दस्तानों को निष्काशन/उत्प्रेषण/ट्वेल अवैध/रकूत पर बाहिर गए परिष्कार में अलग हो सकते हैं • भूगर्भ अन्वेषण करने से पहले उपकरणों को 10°C और 30°C के बीच सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए और सीधे प्रयोग में आने से पहले सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उपकरणों को सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग करें • चेक करें कि दस्तानों में दर, विकृत, कट्टर, रंग के बदलाव आदि न हों, और किसी भी नो-स्लिप पैटर्न/विनियमन वाले दस्तानों को बाहर निकाल दें। यदि जूती है तो उनका निष्काशन किया जाना चाहिए। यदि फिर भी इंस्टॉलेशन किया जाना हो तो दस्तानों को निम्नलिखित विनियमन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में दस्तानों को याथावश्यक पैक फिटा जाना चाहिए। सुरक्षा करने के लिए, किसी भी नो-स्लिप पैटर्न को पढ़ने या देखें: फटे हुए या खिंची 10 कि। ग्राम दस्तानों को निष्काशन/उत्प्रेषण/ट्वेल अवैध/रकूत पर बाहिर गए परिष्कार में अलग हो सकते हैं • भूगर्भ अन्वेषण करने से पहले उपकरणों को 10°C और 30°C के बीच सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए और सीधे प्रयोग में आने से पहले सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उपकरणों को सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग करें • चेक करें कि दस्तानों में दर, विकृत, कट्टर, रंग के बदलाव आदि न हों, और किसी भी नो-स्लिप पैटर्न/विनियमन वाले दस्तानों को बाहर निकाल दें। यदि जूती है तो उनका निष्काशन किया जाना चाहिए। यदि फिर भी इंस्टॉलेशन किया जाना हो तो दस्तानों को निम्नलिखित विनियमन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में दस्तानों को याथावश्यक पैक फिटा जाना चाहिए। सुरक्षा करने के लिए, किसी भी नो-स्लिप पैटर्न को पढ़ने या देखें: फटे हुए या खिंची 10 कि। ग्राम दस्तानों को निष्काशन/उत्प्रेषण/ट्वेल अवैध/रकूत पर बाहिर गए परिष्कार में अलग हो सकते हैं • भूगर्भ अन्वेषण करने से पहले उपकरणों को 10°C और 30°C के बीच सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए और सीधे प्रयोग में आने से पहले सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उपकरणों को सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग करें • चेक करें कि दस्तानों में दर, विकृत, कट्टर, रंग के बदलाव आदि न हों, और किसी भी नो-स्लिप पैटर्न/विनियमन वाले दस्तानों को बाहर निकाल दें। यदि जूती है तो उनका निष्काशन किया जाना चाहिए। यदि फिर भी इंस्टॉलेशन किया जाना हो तो दस्तानों को निम्नलिखित विनियमन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में दस्तानों को याथावश्यक पैक फिटा जाना चाहिए। सुरक्षा करने के लिए, किसी भी नो-स्लिप पैटर्न को पढ़ने या देखें: फटे हुए या खिंची 10 कि। ग्राम दस्तानों को निष्काशन/उत्प्रेषण/ट्वेल अवैध/रकूत पर बाहिर गए परिष्कार में अलग हो सकते हैं • भूगर्भ अन्वेषण करने से पहले उपकरणों को 10°C और 30°C के बीच सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए और सीधे प्रयोग में आने से पहले सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उपकरणों को सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग करें • चेक करें कि दस्तानों में दर, विकृत, कट्टर, रंग के बदलाव आदि न हों, और किसी भी नो-स्लिप पैटर्न/विनियमन वाले दस्तानों को बाहर निकाल दें। यदि जूती है तो उनका निष्काशन किया जाना चाहिए। यदि फिर भी इंस्टॉलेशन किया जाना हो तो दस्तानों को निम्नलिखित विनियमन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में दस्तानों को याथावश्यक पैक फिटा जाना चाहिए। सुरक्षा करने के लिए, किसी भी नो-स्लिप पैटर्न को पढ़ने या देखें: फटे हुए या खिंची 10 कि। ग्राम दस्तानों को निष्काशन/उत्प्रेषण/ट्वेल अवैध/रकूत पर बाहिर गए परिष्कार में अलग हो सकते हैं • भूगर्भ अन्वेषण करने से पहले उपकरणों को 10°C और 30°C के बीच सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए और सीधे प्रयोग में आने से पहले सूखे पैकिंग में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उपकरणों को सुरक्षा के लिए नहीं उपयोग करें • चेक करें कि दस्तानों में दर, विकृत, कट्टर, रंग के बदलाव आदि न हों, और किसी भी नो-स्लिप पैटर्न/विनियमन वाले दस्तानों को बाहर निकाल दें। यदि जूती है तो उनका निष्काशन किया जाना चाहिए। यदि फिर भी इंस्टॉलेशन किया जाना हो तो दस्तानों को निम्नलिखित विनियमन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में दस्तानों को याथावश्यक पैक फिटा जाना चाहिए। सुरक्षा करने के लिए, किसी भी नो-स्लिप पैटर्न को पढ़ने या देखें: फटे हुए या खिंची 10 कि। ग्राम दस्तानों को निष्काशन/उत्प्रेषण/ट्वेल अवैध/रकूत पर बाहिर गए परिष्कार में अलग हो सकते हैं • भूगर्भ अन्वेषण करने से पहले उपकरणों को 10°C और 30°C के बीच सूखे पैकिंग में सुरक्ष

**EN388: 2016**

Mechanical Hazards Mechanische risico's خطرهای مکانیکی Risques mécaniques	Mechanische Gefahren यांत्रिक खतरے Pericoli meccanici Zagrożenia mechaniczne	Perigos mecânicos Riesgos mecánicos Mekanik Tehlikeler
--	---	--



Test results are taken from the palm area of the gloves, with the exception of impact resistance which may be taken from the back of the hand. Impact Protection applies to knuckles and back of hand - WARNING - Impact protection does not apply to fingers

Testresultaten werden afgenomen op de palmzolen van de handschoenen, met uitzondering van impactweerstand, dat mogelijk op de achterkant van de hand werd getest - Impactbescherming geldt voor knokkels en de achterkant van de hand - WAARSCHUWING - Impactbescherming geldt niet voor vingers

نتیجہ آف ٹیسٹنگ کف دستکش گرتے می شود، ہمہ امتدادی مقاومت در برابر ضربه کہ دستکش است از پشت دست گرتے نمود. محافظت از ضربه بر روی بند انگشت و پشت دست اعمال می شود. هشدار - محافظت از ضربه بر روی انگشتان اعمال نمی شود.

Ces résultats sont pris sur la paume du gant, à l'exception de la résistance aux chocs qui peut être prise sur le dos de la main. La protection contre les impacts s'applique aux jointures et au dos de la main - AVERTISSEMENT - La protection contre les impacts ne s'applique pas aux doigts

Die Testergebnisse stammen von der Handfläche der Handschuhe, mit Ausnahme der Schlagzähigkeitprüfung - Diese Ergebnisse stammen vom Handrücken. Aufprallschutz gilt für die Fingergelenke und den Handrücken - ACHTUNG: Aufprallschutz gilt nicht für die Finger

परिणाम परीक्षण, परभाव के उस प्रदर्शन के संचित दस्तावे में इशारे की कृपया न करें जो पीछे की ओर से किया जा सकता है। परभाव संरक्षण उपरली को गारंटी और हाथ के पीछले भाग पर लागू होता है। चेतावनी - परभाव संरक्षण उपरली पर लागू नहीं होता।

I risultati del test si riferiscono all'area del palmo dei guanti, con l'eccezione della prova di resistenza all'impatto che potrebbe essere eseguita sul dorso della mano - La protezione dall'impatto si applica alle nocche e al dorso della mano - ATTENZIONE - La protezione dall'impatto non si applica alle dita

Wyniki pochodzą z testów przeprowadzanych na powierzchni chwytnej rękawicy, wyjątkiem są próby odporności na uderzenia, które mogą być przeprowadzane na grzbiecie rękawicy - Ochrona przed uderzeniem dotyczy knykici oraz wierzchołki dłoni - OSTROŻEŃCIE - Ochrona przed uderzeniem nie dotyczy palców

Os resultados dos testes são retirados da área da palma das luvas, com a exceção da resistência ao impacto, que pode ser retirada das costas da mão - A proteção contra impacto aplica-se aos nós dos dedos e às costas da mão - AVISO - A proteção contra impacto não se aplica aos dedos

Los resultados se obtienen de la zona de la palma de los guantes, con la excepción de la resistencia al impacto, que se obtiene del dorso de la mano - La protección contra impactos se aplica a los nudillos y al dorso de la mano - ADVERTENCIA - La protección contra impactos no se aplica a los dedos

Test sonuçları, elin arka kısmından da alınabilen darbe direnci dısmaden eldivenlerin avuç içi kısmından elde edilmiştir - Parmak eklemelerinde ve elin arka kısmında darbeye karşı koruma mevcuttur - UYARI - Parmak eklemlerinde darbeye karşı koruma mevcut değildir

تؤخذ نتائج الاختبار من منطقة راحة اليد في القفازات، مع استثناء مقاومة الصدمات التي يمكن أخذها من منطقة ظهر اليد. تنطبق خصوية الحماية من الصدمات على منطقة مفصل ظهر اليد. تحذير - تنطبق خصوية الحماية من الصدمات على منطقة الأصابع

X = test not performed X = Test non effectué X = test not esaguito X = prueba no realizada  
X = test niet uitgevoerd X = Test nicht durchgeführt X = test nie został wykonany X = test yapılmadı  
X = تست انجام نشده است X = परीक्षण नहीं किया X = teste não realizado X = الاختبار لم يتم

# SKYTEC Redeem™



Hand size defined in EN ISO 21420:2020 اندازه دست تعریف شده در EN ISO 21420:2020	Glove size اندازه دستکش	Product code کد محصول
Handmaat gedefinieerd in EN ISO 21420:2020	Handschoenmaat	Productcode
Taille des mains définie par la norme EN ISO 21420:2020	Taille de gant	Code produit
Handgröße gemäss EN ISO 21420:2020	Handschuhgröße	Produktkennung
हाथ के आकार इसमें परिभाषित हैं EN ISO 21420:2020	दस्तावे का आकार	उत्पाद कोड
Taglia della mano definita in EN ISO 21420:2020	Taglia guanto	Codice prodotto
Rozmiar dłoni określony w EN ISO 21420:2020	Rozmiar rękawicy	Kod produktu
Tamanho da mão definido em EN ISO 21420:2020	Tamanho da luva	Código do produto
Tamaño de mano definido en EN ISO 21420:2020	Tamaño de guante	Código de producto
El ölçüsünün tanımlandığı yer EN ISO 21420:2020	Eldiven ölçüsü	Ürün kodu
EN ISO 21420:2020	مقاس اليد كما هو محدد في التوجيه EN ISO 21420:2020	رمز المنتج
6	XS/6	SKG00032EB
7	S/7	SKG00032ED
8	M/8	SKG00032EF
9	L/9	SKG00032EH
10	XL/10	SKG00032EJ
11	XXL/11	SKG00032EL

Products conforms to the requirements of: EU regulation 2016/425 of the European Parliament of the Council as Personal Protective Equipment (PPE)	Produkte entsprechen den Anforderungen von: EU-Verordnung 2016/425 des Europäischen Parlaments als persönliche Schutzausrüstung (PSA)	Produtos conforme os requisitos de: regulamento 2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho relacionado com o Equipamento de Proteção Individual (EPI)
Producten voldoen aan de eisen van: EU-verordening 2016/425 van het Europees Parlement als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)	उत्पाद व्यक्तिगत आरक्षण उपकरण (पी.पी.ई.) के रूप में कवर किए गए हैं। परभाव संरक्षण और सुरक्षा के व्यक्तिगत (पी.पी.ई.) 2016/425	Los productos cumplen con los requisitos de: reglamento de la UE 2016/425 del Parlamento Europeo como Equipo de Protección Personal (EPI)
Produktet oppfyller kravene i: EU-forskrift 2016/425 om personlig beskyttelsesutrustning (PBU)	محصولات مطابق با الزامات: مقررات الاتحاد الأوروبي 2016/425 بشأن معدات الحماية الشخصية (PPE) شخصي.	Ürün uygundur: reglamento de la UE 2016/425 del Parlamento Europeo como Equipo de Protección Personal (EPI)
Les produits sont conformes aux exigences de: règlement de l'UE 2016/425 du Parlement européen en tant qu'équipement de protection individuelle (EPI)	I prodotti sono conformi ai requisiti di: regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo come dispositivi di protezione individuale (DPI)	توافق المنتج مع متطلبات: لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2016/425 الصادرة عن البرلمان الأوروبي للمعدات الشخصية (PPE).
Type examination certificate (Module B) issued by:	Baumusterprüfung zertifikate (Modul B) ausgestellt von:	Certificados de exame de tipo (Módulo B) emitidos por:
Certificaten van typekeuring (module B) afgegeven door:	एकत्र परीक्षण प्रमाणपत्र (मॉड्यूल बी) जारीकर्ता:	Certificados de exame de tipo (Módulo B) emitidos por:
Безопасностен сертификат (модул В) издаден от:	Attestati di esame de tipo (Modulo B) rilasciati da:	Tip mauneyo sertifikallan (Modül B) yayınlayıcı:
Certificats d'examen de type (module B) délivrés par:	Certyfikaty badania typu (modul B) wydane przez:	شهادات اختبار النوع (الوحدة ب) الصادرة عن:

Warning: if dulling happens during the cut resistance test, the coup test results are only indicative while the TDM cut resistance is the reference performance results. Warning: Wenn während des Schnitt widerstandstests ein Abstumpfen auftritt, sind die Ergebnisse des Coup Test nur indikativ, während der TDM-Schnittwiderstand die Referenzleistungsergebnisse sind.

Advertencia: si ocurre un contundente durante la prueba de resistencia al corte, los resultados de la "coup test" son solo indicativos, mientras que la resistencia al corte TDM son los resultados de rendimiento de referencia.

نتیجہ عملکرد در است coup فقط در حالی نشان داده می شود که مقاومت برش coup هشدار: اگر در هنگام آزمایش مقاومت برش خنثی اتفاق افتد، نتایج آزمون Attention: si un émoussement se produit pendant le test de résistance à la coupe, les résultats du coup test ne sont qu'indicatifs tandis que la résistance à la coupe TDM est les résultats de performance de référence.

चेतावनी: यदि कट प्रतिरोध परीक्षण के दौरान सतह होता है, तो "दबावपलट परीक्षण" परिणाम केवल संकेत कर रहे हैं जबकि TDM कट प्रतिरोध संदर्भ प्रदर्शन परिणाम हैं।

Attenzione: se si verifica opacizzazione durante il test di resistenza al taglio, i risultati del "coup test" sono solo indicativi mentre la resistenza al taglio TDM è il risultato delle prestazioni di riferimento.

Waarschuwing: als er stomp optreedt tijdens de snij weerstandstest, zijn de resultaten van de "coup-test" slechts indicatief, terwijl de TDM-snijweerstand de referentieprestatieresultaten zijn.

Ostrzeżenie: jeśli stopienie wystąpi podczas testu odporności na przecięcie, wyniki „coup test” mają jedynie charakter informacyjny, podczas gdy odporność na przecięcie TDM jest wynikami referencyjnymi.

Aviso: se o contundente ocorrer durante o teste de resistência de corte, os resultados do "coup test" são apenas indicativos, enquanto a resistência de corte TDM é o resultado de desempenho de referência.

Uyarı: Kesilme direnci testi sırasında kilit meydana gelirse, "coup test" sonuçları yalnızca gösterge niteliğindedir, TDM kesilme direnci referans performans sonuçlarıdır.

تكون إرشادية فقط بينما مقاومة COUPE تؤخذ نتائج الاختبار من منطقة كف القفازات تحذير: إذا حدث التباطؤ أثناء اختبار مقاومة القطع، فإن نتائج اختبار ال هي نتائج الأداء المرجعية TDM قطع

All trade names are trademarks of their respective companies. Wszystkie nazwy handlowe są znakami handlowymi stanowiącymi własność odpowiednich firm.

Alle handelsnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven. Todos as designações comerciais são marcas registadas das respetivas sociedades respectivas. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de sus empresas respectivas. Tüm ticari isimler, ilgili şirketlerin ticari markalarıdır.

Toutes les marques commerciales sont des marques déposées de leurs sociétés respectives. Alle Handelsnamen sind Marken ihrer jeweiligen Unternehmen. سارے دے نام انکی سبکتی کمپنی کے دے نامارک ہے

Tutte le denominazioni commerciali sono marchi registrati delle rispettive società. جميع الأسماء التجارية تعتبر علامات تجارية خاصة بالشركات المملكتها ويمكن الحصول

www.globusgroup.com

Globus (Shetland) Ltd, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, United Kingdom  
Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, United Arab Emirates  
Globus Group Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, NY 10111, USA  
EU representative: Globus EMEA Ltd, 51 Dawson Street, Dublin, D02 AN25, Ireland

www.globusgroup.com

Globus (Shetland) Ltd, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, United Kingdom  
Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, United Arab Emirates  
Globus Group Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, NY 10111, USA  
EU representative: Globus EMEA Ltd, 51 Dawson Street, Dublin, D02 AN25, Ireland

www.globusgroup.com

Globus (Shetland) Ltd, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, United Kingdom  
Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, United Arab Emirates  
Globus Group Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, NY 10111, USA  
EU representative: Globus EMEA Ltd, 51 Dawson Street, Dublin, D02 AN25, Ireland



SKY-PCX-US-REDEEM-0923

EU: INTERTEK ITALIA SPA, Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italia (Notified Body No. 2575)